

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०

राज्यपाल ने स्व० दीपल की पुस्तक 'सी०यू० टूमारो एट नाइन' का विमोचन किया

लखनऊ: 7 अप्रैल, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने स्व० दीपल सक्सेना द्वारा लिखित फिक्शन 'सी०यू० टूमारो एट नाइन' का आज राजभवन में विमोचन किया। इस अवसर पर जल निगम के अध्यक्ष श्री जी०पटनायक, स्व० दीपल सक्सेना के पिता श्री चन्द्र प्रकाश, माता श्रीमती रश्मि सक्सेना तथा पत्नी श्रीमती साक्षी माथुर व अन्य परिजन उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि भारतीय सूचना सेवा 2015 बैच के अधिकारी दीपल सक्सेना आकाशवाणी में सहायक निदेशक समाचार के रूप में कार्यरत थे। 30 दिसम्बर, 2017 को एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी थी। स्व० दीपल का विवाह 11 दिसम्बर, 2017 को हुआ था। स्व० दीपल सक्सेना के माता-पिता द्वारा पुस्तक का विमोचन उनकी जन्मतिथि 7 अप्रैल के दिन श्रद्धांजलि स्वरूप कराया गया है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए कहा कि आज का कार्यक्रम एक गंभीर कार्यक्रम है जो खुशियों में भी दुःख समेटे हुये है। किसी के जीवन में भी इस प्रकार की घटना दर्दनाक होती है। पुत्र का निधन वेदना देने वाली बात है। परिजनों ने विधाता की नियति को मानकर धैर्य के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया है। ईश्वर स्व० दीपल सक्सेना की आत्मा को सद्गति प्रदान करे।

श्री नाईक ने कहा कि स्व० दीपल की पुस्तक यह संदेश देती है कि ऐसी विपदाओं के बाद भी आगे जाना है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सहज और सरल है। लेखक की विशेषता होती है कि पाठक को लगे कि लेखक स्वयं बोल रहा है। पुस्तक का शीर्षक अत्यन्त सामयिक व युवा पीढ़ी में जिज्ञासा जगाने वाला है। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह पुस्तक परिस्थितियों को समझते हुये माता-पिता के लिये आगे बढ़ने का प्रयास है।

कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन स्व० दीपल सक्सेना के पिता श्री चन्द्र प्रकाश ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल का सम्मान तुलसी का पौधा व अंग वस्त्र देकर किया गया।

अंजुम/ललित/राजभवन (142/14)

